



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

सामिलिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019

Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER

Jaipur, September 12, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 9903 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Nainwa has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Nainwa. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगर पालिका नैनवाँ जिला बूँदी (राजस्थान)

प्रपत्र-क

वार्ड नं. 01

टोडापोल पुराने अस्पताल से बांयी और शामिल कर गिरिराज माली घांस भैरु ईमाम चौक को दायी और छोड़कर अयूब बिसायती तमोलियों की हताई राकेश कम्पाउण्डर के मकान को बांयी और शामील कर, दीपक मैडीकल, औकार सिंह के मकान, सलीम की चक्की डॉक्टर बंगाली व शंकर वैरागी के मकान को दायी और छोड़ते हुये यहाँ से उत्तर की ओर मुड़कर कोट को लांघते हुये नवल सागर तालाब मे होते हुये सलावटो के कुएं व गौशाला को शामिल करते हुये, मदन लाल भावपुरा फीटर को दायी और छोड़कर नगर रोड तक की बांयी और चलकर जाटों का झूँपड़े, बरडा के बालाजी, मोग्या बस्ती भोलाई बड व लबानीयां का कुआं, कोटवालो का कुआं को बांयी और शामील कर सुवानीया रोड, हण्ठपुरा की नगरीय आबादी व जमादार के कुए को शामिल करते हुये चौथमाता मन्दिर को दायी और छोड़ते हुये परकोटे की खाई को बांयी और शामिल कर कोट के सहारे सहारे चलकर चतुर्भुज यादव के मकान को बायी और शामिल कर टोडापोल दरवाजे मे घुसते हुये समस्त आबादी को शामिल करते हुये टोडापोल अस्पताल पर समाप्त।

वार्ड नं. 02

राजघांट बालाजी से प्रारंभ होकर नवल सागर में होते हुए जमादार का कुंवा ब्रिजनाथ शर्मा के कुए को बांये और शामिल करते हुए लबानिया के कुए को दांये और छोड़ते हुए जवानों का झुपड़ा, टेक वालो का झुपड़ा, लाखड़ो का झुपड़ा को बांयी ओर शामिल करते हुए जजवर रोड किशन

बिहारी के कुए को दांयी और छोड़ते हुए प्रेम जी बोहरा के कुए को व पटवारियों की कोठी को बांयी और शामिल करते हुए रघुवीर सिंह के कुए को दांये और छोड़ते हुए यहाँ से उत्तर की ओर मुड़कर लंका हाली को शामिल कर अँधेरी गली में चलते हुए खेल्वारों के कुए को दांयी और छोड़ते हुए भंवर लाल माली को बांयी और शामिल करते हुए खानपोल दरवाजे में प्रवेश कर महेश शर्मा, शोजी लाल गुर्जर के मकान को दांयी और छोड़ते हुए कमल खाती व सत्यनारायण मंदिर को बांयी और शामिल कर देवजी मंदिर व जगदीश कंपाऊंडर के मकान को दांये और छोड़ते हुए चौथमल भाट शिवराज सिंह के मकान को बांयी और शामिल कर संग्राम सिंह व रामनारायण माली के मकान को दांयी और छोड़ते हुए पोखर माली, देवलाल ढोली, रामचरण हरिजन के मकान को बांयी और शामिल कर छोटू जाट व गफ्फार मंसूरी के मकान को दांयी और छोड़ते हुए रोड क्रॉस कर कमल हरिजन के मकान को बांयी और शामिल कर यहाँ से उत्तर की ओर बहादुर सिंह के मकान को बांयी और शामिल कर जोशी के कुए व पुरुषोत्तम कुम्हार के मकान को दांयी और छोड़ते हुए राजघांट बालाजी मंदिर को व कुम्हारों के मंदिर को बांयी और शामिल कर राजघांट बारी तक बांयी ओर की संपूर्ण आबादी समाप्त ।

वार्ड नं. 03

गाड़ीखाना की गली भंवर लाल लीलगर के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम को ओर जगन्नाथ धाकड़ , लक्ष्मण बैरागी के मकान को दांयी और छोड़ते हुए संतोष सिंह , शम्भू जोशी के मकान को बांयी और शामिल कर कँवर लाल बाबर , हरिनारायण शर्मा, गणेश कुम्हार के मकान को दांयी और छोड़ते हुए रामस्वरूप राव, जगदीश कुम्हार के मकान को बांयी और शामिल कर सुवालाल कुम्हार राजघांट बालाजी को दांयी और छोड़ते हुए पुरुषोत्तम कुम्हार, गफ्फार मंसूरी, छोटू जाट के मकान को बांयी और शामिल कर रामचरण हरिजन, देवी लाल ढोली के मकान को दांयी और छोड़ते हुए रोड क्रॉस करते हुए दक्षिण की ओर लक्ष्मण सिंह, संग्राम सिंह के मकान को बांयी और शामिल कर पोखर माली, शिवराज सिंह के मकान को दांयी और छोड़ते हुए पूर्व की ओर जगदीश कंपाऊंडर के मकान को बांयी और शामिल कर चौथमल भाट के मकान को दांयी और छोड़ते हुए यहाँ से उत्तर की ओर मुड़कर गणेश शर्मा, शोजी लाल माली के मकान को दांयी और छोड़ते हुए कल्याण माली बांयी और शामिल कर यंहा पश्चिम की ओर गली में मुड़कर रामप्रसाद तेली, मुखिया जी के नोहरे को दांयी और छोड़ते हुए नरेन्द्र ग्रामसेवक के मकान को बांयी और शामिल कर यंहा से रोड क्रॉस कर बाबु हलवाई के मकान तक की बांयी आबादी को शामिल करते हुए यहाँ से उत्तर की ओर मुड़कर बरमुंडा के मकान स्वर्णकार समाज के मंदिर व मालदेवनी मंदिर को बांयी और छोड़ते हुए गोपाल खम्माणी, सेठया जी के मकान, चौथमल हरसोरा की दूकान को दांयी और शामिल कर पोद्वार के मकान व किशन बिहारी जी के मकान को दांये और छोड़ते हुए प्रेम जी बोहरा की दुकान व जैन मंदिर को बांयी और शामिल कर भंवर लाल लीलघर तक की समस्त बांये आबादी को शामिल करते हुए समाप्त ।

वार्ड नं. 04

शीतला माता के मंदिर से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर बड़ी हेली को शामिल करते हुए तथा पुखराज ओसवाल के मकान को दांयी और छोड़ते हुए गली गली चलकर गोपी सलावट के मकान को शामिल कर दांयी और दलीचंद सलावट के मकान को छोड़ते हुए यहाँ से रोड क्रॉस कर किशन गोपाल सोनी, बजरंग लाल जात, मोहन लाल स्वर्णकार के मकान को शामिल कर मदन लाल

छाबुनिया व भंवर लाल अद्यापक व छोटू देवा बामला के मकान को दांयी और छोड़ते हुए आगे कर्पूर चौंद मारवाड़ा के खेत में होते हुए रामद्वारा को शामिल कर यंहा से दक्षिण की ओर मुड़कर कोट कोर्ट चलकर राजघांट बारी तक यंहा से पूर्वी ओर धूमकर सुवा लाला कुम्हार व नंदा लाल कुम्हार के मकान को दांयी और शामिल करते हुए तथा पुरुषोत्तम कुम्हार व माधो लाल कुम्हार के मकान को दायी और छोड़कर यहाँ से उत्तरी ओर मुड़कर रस्ते रस्ते चलकर हरिनारायण शर्मा व सर्यद बुनियाद अली के मकान तक बांयी और की आबादी को शामिल कर यंहा से रोड क्रॉस कर गाड़ीखाना में पूर्वी ओर चलते हुए रामदेव कुम्हार के मकान तक बांयी शामिल कर गाड़ीखाना गली में चलते हुए गोविन्द देव जी के मंदिर व जगन्नाथ नागर के मकान तक की बांयी आबादी को शामिल कर तथा गौतम जी के मंदिर कैलाश चंद टेलर के मकान को दांयी और छोड़कर उत्तरी ओर मुड़कर केशवराय मंदिर को शामिल कर आगे बाजार चलकर दलीचंद लखारे की दुकान तक की समस्त बांयी आबादी को शामिल कर शीतला माता मंदिर तक समाप्त ।

वार्ड नं. 05

चौथमाता से प्रारंभ होकर दक्षिणी ओर कोट कोट चलते हुए रामद्वारा को दांयी और छोड़ते हुए यंहा से पूर्वी ओर मुड़कर कर्पूर चंद जैन के खेत में चलते हुए छोटू व देवा बामला, भंवर लाल जाट व मदन लाल छाबुनिया के मकान तक की बांयी और की आबादी को शामिल करते हुए तथा बजरंग लाल जाट व श्याम सुन्दर शर्मा के मकान को दांयी और छोड़ते हुए यहाँ से रोड क्रॉस कर दलीचंद सलावट, राम लाल जाट, पुखराज, सोभाग गावंडी वाले की दुकान तक की बांयी और आबादी को शामिल करते हुए बड़ी हवेली को दांयी और छोड़ते हुए यंहा से उत्तरी ओर मुड़कर बाजार बाजार चलते हुए कासली वालों के मकान तक की बांयी आबादी को शामिल कर यंहा से पश्चिम की ओर मुड़कर कालू जी मारवाड़ा, विमल मारवाड़ा, सुरेश मारवाड़ा व गोविन्द नगर के मकान तक की बांयी और आबादी को शामिल करते हुए तथा दांयी और मालदेव मंदिर, महासीर पाटोदी, व कपूर चंद मारवाड़ा एवं नाथू लाल मारवाड़ा के मकान को दांयी और छोड़ते हुए रोड क्रॉस कर गोपी लाल माली व सुखदेव जाट, छोटी मस्जिद, किशन गोपाल नाइ के मकान की बांयी और आबादी को शामिल करते हुए शोकत ओर मुन्ना सिपाही के मकान को दांयी और छोड़ते हुए यहाँ से आगे चलकर हरिशंकर महावर, माधो लाल महावर, व नन्द लाल महावर, गोकुल चंद महावर के मकानों तक की समस्त बांयी और आबादी को शामिल कर दक्षिण की ओर कोट कोट चलकर चौथमाता मंदिर तक की समस्त बांयी आबादी शामिल कर समाप्त ।

वार्ड नं. 06

टोडापोल दरवाजे से प्रारम्भ होकर गिरिराज सैनी के मकान से दक्षिणी ओर परकोटे पर चलते हुए गोकुल चंद महावर के मकान को दांये छोड़कर यंहा से रोड क्रॉस कर उत्तरी पूर्वी ओर गोबरी लाल खटीक के मकान व नन्द किशोर खटीक के मकान को बांयी ओर लेते हुए तथा कोलिय का कुंवा बाबु लाल अद्यापक, हरिशंकर महावर के मकान को दांये छोड़ते हुए उत्तरी पूर्वी ओर मुन्ना मोहम्मद सिपाही, इशाक मोहम्मद, शोकत अली के मकान तक बांयी आबादी को शामिल कर तथा छोटी मस्जिद को दांयी और छोड़ते हुए तथा यंहा से रोड क्रॉस कर दक्षिणी ओर बांये नाथू लाल मारवाड़ा के मकान को शामिल कर गोपी माली के मकान को दांयी ओर छोड़ते हुए पूर्वी ओर गली में मुड़कर महावीर मारवाड़ा के मकान तक बांयी आबादी शामिल कर दांयी ओर गोविन्द नागर, सुरेश

मारवाड़ा व कपूर चंद मारवाड़ा के मकान को छोड़ते हुए यंहा से उत्तरी ओर मुड़कर महावीर चौधरी, घनश्याम गुर्जर, गीता बाई तेली, अच्यूब खान बिसायती, कल्याण गुर्जर के मकान को बांये शामिल कर यंहा से पश्चिमी ओर मुड़कर आगे रस्ते रस्ते चलते हुए गिरिराज सैनी के मकान तक बांयी आबादी शामिल कर समाप्त ।

वार्ड नं. 07

बानो बेगम की चक्की से प्रारम्भ होकर दक्षिणी ओर चलते हुए जलालुद्दीन व खाना अहीर के मकानों तक बांयी आबादी को शामिल करते हुए तथा शमशुद्दीन व गीता देवी के मकान को दांये छोड़कर आगे रस्ते रस्ते चलकर कपूर चंद जैन मारवाड़ा के मकान तक की बांयी आबादी को शामिल करते हुए मांगीलाल रेंजर के मकान को दांये छोड़ते हुए यंहा से पूर्वी ओर मुड़कर रतन लाल मारवाड़ा, महावीर पाटोदी, आगे मालदेवजी मंदिर को बांये शामिल तथा कालू लाल मारवाड़ा व शांति लाल कासलीवाल के मकान को दांये छोड़ते हुए यंहा से रोड क्रॉस कर जैन चैताले को दांये छोड़ते हुए सोहन जी मोडिका के मकान को शामिल करते हुए सड़क सड़क चलकर बशीर मोहम्मद व हमता कुए व देई वालों की दूकान व मकान को बांयी और शामिल कर भैरू जी मंदिर व देई वालों के मकान, बशीर मोहम्मद, ताज रेडीमेड दूकान को दांयी और छोड़ते हुए महावीर शर्मा व जुम्मा लीलघर के मकान को बांयी और शामिल कर हरिराज सिंह, जगदीश तहसीलदार व पदम् मोडिका के मकान को दांयी और छोड़ते हुए प्रताप सिंह, नाथू लाल मास्टर, सोहन जी मोडिका, दीपक मेडिकल को बांयी और शामिल कर रजाक व अच्यूब की दुकानों को दांयी ओर छोड़ते हुए बाबु भाई के मकान को बांयी ओर शामिल कर बानो बेगम की चक्की तक समाप्त ।

वार्ड नं. 08

जैन चैताले से प्रारम्भ होकर दक्षिणी ओर आम बाजार चलते हुए चारभुजा मंदिर को शामिल करते हुए तथा छोटू लाल जैन मोडिका के मकान को दांयी छोड़ते हुए आगे रोड रोड चलकर कल्याण जी दर्जी की दूकान तक की बांयी आबादी को शामिल करते हुए तथा विमल जी मारवाड़ा की दूकान को दांयी छोड़कर यंहा से पूर्वी ओर मुड़कर नाथू लाल हलवाई, जानकी राय जी महाराज मंदिर तक की आबादी को शामिल कर तथा तेलियो का नोहरा व पुरुषोत्तम सोनी के मकान को बांयी छोड़ते हुए आगे बांयी आबादी को लेते हुए राधेश्याम शर्मा के मकान तक यंहा से पूर्वी भैरू जी की गली में चलते हुए श्रीनाथ सोनी के मकान को शामिल करते हुए तथा अश्विनी कुमार शर्मा के मकान को दांयी छोड़ते हुए सीधे चलकर दीन दयाल नामा के मकान को बांयी ओर शामिल कर यंहा से उत्तर की ओर मुड़कर मूलचंद पटवा, जगदीश खाती के मकान को दांयी ओर छोड़ते हुए मोहम्मद अली के मकान को बांयी और शामिल कर देई वालों के मकान व हमता के कुए को दांयी और छोड़ते हुए पश्चिम की ओर भैरू जी मंदिर, ओमप्रकश नामा, गजराज जैन के मकान को बाये और शामिल कर जैन मंदिर, नेमीचंद जैन सुरेश मोडिका के मकान को दाये और छोड़ते हुए सुरेश गोयल व मदन जी मोडिका के मकान को शामिल कर जैन चैताले तक समाप्त ।

वार्ड नं:- 09

झांडे की गली राजलावता वालों की दुकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण और आम बाजार चलते हुए बद्रीलाल खत्री व बाबु हलवाई की ओर व नेमीचंद जैन के मकान तक की बाये आबादी को शामिल

करते हुए गणेश मंदिर व प्रेमचंद बोहरा के मकान के दाये छोड़ते हुए पोद्धार जी मकान तक, की बाये आबादी को शामिल करते हुए यहाँ से मालदेवनी मंदिर को दाये छोड़ते हुए पूर्व की और मुड़कर कैलाश जैन बजाज के मकान को दाये छोड़कर गली गली खातियों के नोहल्ले की बाये आबादी को शामिल करते हुए टेक पर पसारियों के मकान को दाये छोड़ते हुए पोद्धार नोहरा को बाये शामिल करते हुए यहाँ से सीधे गली गली चलकर पदम् जैन के मकान को दाये छोड़ते हुए महबूब के मकान व बिरधी लाल कुम्हार के मकान को बाये और शामिल करते हुए महावीर सिन्धव के मकान को दाये छोड़ते हुए राजेंद्र नरुका के मकान को बाये शामिल करते हुए यहाँ से उतर की ओर मुड़कर किशन लाल कलाल के मकान को बाये शामिल करते हुए रामप्रसाद कलाल, बाबू अली कम्पाउण्डर, नाथू खा केमकान को दाये छोड़ते हुए इनायत हुसैन व मुस्ताक मोहम्मद के मकान को बाये शामिल कर गनी के मकान को बाये शामिल कर करीम के मकान को दाये छोड़ते हुए यहाँ से भक्तों के कुवे व नाथू रेवाल, ब्रजराज शर्मा के मकान को दाये छोड़ते हुए बाबू मोहम्मद मिर्जा, सीताराम शर्मा के मकान को बाये और शामिल करते हुए यहाँ से पश्चिम की ओर भेरु जी गली में मुड़कर कमलेश शर्मा के मकान को शामिल करते हुए महावीर शर्मा के मकान को दाये और छोड़ते हुए चोथमल पीटीआई के मकान को शामिल करते हुए जानकी राय जी मंदिर को दाये और छोड़कर महावीर गुदावाले के मकान व तेलियों के नोहरे को बाये और शामिल करते हुए राजेंद्र कुमार जैन राजलावता वालों की दुकान पर समाप्त ।

वार्ड नं. 10

मालदेवनी केमन्दिर से चौथमाता हरसोराके मकानकोशामील कर प्रारम्भकरते हुये पश्चिम की ओर चलकर राधेशयाम सानी व मन्दिर तक की आबादी को बांयी और शामिल करते हुये सेठियां जी व दुर्गलाल जैन के मकान के दायी छोड़ते हुये यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़कर कैलाश बरमुण्डा के मकान व बजरंग लाल जैन के मकान को बांयी और शामिल करते हुये वहा से पूर्व की ओर मुड़कर राम प्रसाद तेली के मकान को शामिल कर यहाँ से रोड क्रास कर महावीर प्रसाद शर्मा के मकान को बाये शामिल कर दक्षिण की ओर चलकर देवनारायण मंदिर तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए कल्याण माली, जगदीश टेलर, चोथमल भाट, शोजी गुर्जर, व तुलसी राम बलाई के मकान को दाये छोड़कर उतरी ओर गली में मुड़कर गली गली चलकर कजोड़ माली तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए यहाँ से रोड क्रोस कर छेलबिहारी शर्मा से पूर्वी ओर रोड रोड चलकर माता जी की हाथाई प्रह्लाद माली के मकान तक की बाये आबादी को शामिल कर माता जी मंदिर, सत्यनारायण जी मंदिर व गुलाब कलाली के मकान को दाये छोड़ते हुए व नूर मोहम्मद, पदम जैन के मकान तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए पोदार नोहरे को दाये छोड़ते हुए राधेशयाम खाती के मकान को दाये छोड़कर मोहन लाल जैन के मकान व कैलाश बजाज के मकान को बाये शामिल करते हुए कमल पोदार के मकान को दाये छोड़ते हुए मालदेवनी मंदिर बाये पर समाप्त ।

वार्ड नं:-11

भोलू माली, देवीलाल पटेल के मकान से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर चलकर तुलसीराम बलाई तक की समस्त आबादी को बाये शामिल करते हुए यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़कर देवलाल गुर्जर, सोजी लाल गुर्जर व महेश पंडित को बाये शामिल करते हुए सत्यनारायण मंदिर व कमल खाती के मकान को दाये छोड़ते हुए पूर्व की ओर परकोटे के सहारे चलकर बागर स्कूल में भवन व रफीक मोहम्मद के मकान को बाये और शामिल कर राधाकिशन पटवारी के मकान के मकान को दाये और

छोड़ते हुए पीर मोहम्मद, गफकार ठेकेदार व दिन्या हेला के मकान को बाये शामिल करते हुए अम्बेडकर सर्किल, रामप्रसाद कलाल, लादुलाल गुर्जर के मकान के मकान तक की दाये आबादी को छोड़ते हुए दुर्गा कलाल, दिलीप मीना, के मकान तक की दाये आबादी को शामिल करते हुए यहाँ से दक्षिण की और मुड़कर गली चलकर रोड क्रोस कर अल्लादीन हेला के मकान व सत्यनारायण मंदिर की दाये आबादी शामिल कर प्रह्लाद माली के मकान व माताजी की हताई, छेलबिहारी शर्मा के मकान तक की दाये आबादी को छोड़ते हुए कंकाली माता से देवीलाल पटेल तक आबादी को बाये शामिल करते हुए समाप्त।

वार्ड न- 12

खानपोल दरवाजे बाहर किशन गोपाल खाती के मकान से शुरू करते हुए दक्षिण की और भंवरलाल के मकान के मकान को दाये और छोड़ते हुए खेल की कुओं को बाये और शामिल कर गली गली चलकर लंकहाली को दाये और छोड़ते हुए जजावर रोड क्रोस कर पश्चिम की और मुड़कर रघुवीर सिंह के कुवे को शामिल कर रोड रोड चलकर मिन्डोला के झोपड़ों की आबादी को शामिल करते हुए यहाँ से सिचाई विभाग को शामिल कर बासी रोड चलते हुए सुदरा कुम्हार, ग्यारसी लाल मोग्या व संघाडी तलाई तक की समस्त बाये आबादी को शामिल करते हुए बीड़ की आबादी को शामिल करते हुए, आवासन मंडल की आबादी को शामिल करते हुए महाविधालयव चॉदना भवन को दाये छोड़ते हुए यहाँ से पश्चिम की और मुड़कर रोड रोड चलकर पेट्रोल पंप व बटवाडिया टेक पर प्याऊ को बाये और शामिल करते हुए लुहरियो के मकान व गुर्जर छात्रावास को दाये छोड़ते हुए वहा से जजावर रोड क्रोस कर कन्हैयालाल गुर्जर के मकान को बाये शामिल करते हुए समस्त बाये आबादी को शामिल कर बायपास रोड को दाये छोड़ते हुए रोड रोड चलकर बाबुराम रीडर के मकान व नगरपालिका परिसर को दाये छोड़कर बाबु अली के मकान तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए लादुलाल सैनी, मेवालाल अैथ्यापक भंवरलाल माली के मकान को बाये शामिल करते हुए देइपोल शौचालय व महावीर सिन्धव के मकान को दाये छोड़ते हुए भंवरलाल पटवारी, भोलाशंकर कानूनगो तक की समस्त बाये आबादी को शामिल करते हुए रायसागर पाल को दाये छोड़ते हुए फरियाद तक के मकानों को शामिल करते हुए दरवाजे बाहर पश्चिम की और खाई के सहारे चलते हुए चलते हुए परकोटे के बाहर की आबादी को शामिल करते हुए खानपोल दरवाजा बाहर किशन गुर्जर तक की समस्त आबादी को शामिल करते हुए किशन गोपाल खाती के मकान पर समाप्त।

वार्ड न:-13

परकोटे के सहारे जुम्मा पठान के मकान से प्रारम्भ होकर भक्तों के मंदिर व करीम खा के मकान को शामिल कर यहाँ से रोड क्रोस क्र पश्चिम की और मुड़कर छोटूलाल कानूनगो, इशाक अली व नाथू खा के मकान को बाये और शामिल करते हुए गनी मोहम्मद व मुस्ताक मोहम्मद के मकान को दाये छोड़ते हुए यहाँ से मुड़कर दक्षिण की और चलते चलते हुए बाबु अली कम्पाउण्डर व हेड साहब के मकान तक को बाये आबादी को शामिल करते हुए किशन लाल कलाल व राजेंद्र सिंह नरुका के मकान को दाये छोड़ते हुए यहाँ से पूर्व की और मुड़कर रामप्रसाद के मकान, अम्बेडकर सर्किल को बाये शामिल करते हुए दीन्या हेला के मकान को दाये छोड़ते हुए यहाँ से रोड क्रोस क्र पश्चिम की और चलते हुए बढ़ी हेला के मकान को बाये शामिल करते हुए गफकार ठेकेदार व जलालुदीन मकान को दाये छोड़ते हुए राधाकिशन पटवारी के मकान तक की बाये आबादी

को शामिल करते हुए रफीक व स्कूल को दाये छोड़ते हुए यहाँ से पूर्व की और चलकर, मोजीराम गुर्जर व शाफी कबाड़ी तक के समस्त मकानों को शामिल करते हुए मूलचंद पटवारी के मकान व समस्त सराय की आबादी को शामिल करते हुए यहाँ से पुरानी चोकी पर जाकर कोट तक चलकर यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़कर दरवाजे में प्रवेश क्र भंवर लाल ड्राईवर के मकान को शामिल करते हुए यहाँ से गली में उत्तर की ओर चलकर कोट कोट के सहारे की समस्त आबादी को शामिल करते हुए केसरलाल के पुराने मकान, आंगनबाड़ी केन्द्रों को शामिल कर रायसागर शामिल कर रायसागर परकोटे को पूर्वी और छोड़ते हुए यहाँ से जुम्मा पठान के मकानपर समाप्त।

वार्ड नं:-14

जगदीश खाती के मकान से प्रारंभ होकर देइपोल रस्ते हुए अहमद अली व दीनदयाल नामा के मकान को दाये छोड़ते हुए फूलचंद पटवा व बृजराज शर्मा के मकान को बाये और शामिल करते हुए कमलेश शर्मा व सीताराम शर्मा के मकान को दाये छोड़ते हुए लाडीजी के कुए व रामनारायण तेली व पप्पू धोबी के मकान को दाये और छोड़ते हुए बजरंगलाल रेवाल व पीर मोहम्मद के मकान को बाये और शामिल करते हुए समस्त बाये आबादी को शामिल करते हुए यहाँ से पूर्व की ओर मुड़कर हरिनारायण स्वामी के मकान को शामिल करते हुए कोट तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए यहाँ से उत्तर को मुड़कर कोट कोट के सहारे रघुनन्दन स्वामी, उदा लाल कोली, आशिक भाई व बुर्ज के बालाजी तक की आबादी को शामिल करते हुए यहाँ से वापिस पश्चिम की ओर मुड़कर चलते हुए मदरसा को शामिल करते हुए कमरुदीन, मुन्ना भाई व जागीरदार के मकान को शामिल करते हुए समस्त बाये आबादी को शामिल करते हुए जगदीश खाती के मकान पर समाप्त।

वार्ड नं :-15

देइपोल दरवाजे बाहर फरियाद अली के मकान मकान व रायसागर पाल के सहारे की आबादी को छोड़ते हुए रायसागर पाल के अंदर बाये की ओर आबादी को शामिल करते हुए प्रेम मंदिर टॉकीज को बाये और शामिल करते हुए रामस्वरूप कानूनगो व पोखर रेगर के मकान को दाये छोड़ते हुए रायसागर बालाजी के रस्ते पर सब ट्रेजरी व तहसील परिसर को शामिल कर रामप्रसाद कलाल व बंगाली डॉक्टर के मकान को दाये और छोड़ते हुए जलदाय व अदालत परिसर बैंक ऑफ बड़ोदा को बाये शामिल करते हुए हायर सेकंड्री स्कूल को दाये और छोड़ते हुए उत्तर की ओर रोड रोड चलते हुए ईदा मोहम्मद मंसूरी व उम्मेद सोनी के मकान तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए भगतसिंह सर्किल को दाये छोड़ते हुए यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़कर रोड रोड चलते हुए देई वालो के मकान को शामिल कर गाँधी विश्रांति गृह तेजाजी धानक, छोटू तम्बोली, विश्वकर्मा मंदिर दरवाजे तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए यहाँ से दक्षिण की ओर रायसागर में मुड़कर परकोटे के बाहर रायसागर के अंदर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए परकोटे के सहारे सहारे चलते हुए फरियाद अली के मकान को छोड़ते हुए समाप्त।

वार्ड नं. 16

देइपोल चुंगीनाका रामस्वरूप वर्मा के मकान से शुरू करते हुये महावीर सिन्धव के मकान को बाये और शामिल करते हुये जयकुमार जैन व भंवर लाल माली के मकान दुकान को दाये

और छोड़कर बूंदी रोड क्रोस कर देझोल शोचालय व जुम्मा खा की दुकाने व मगला माली के मकान को बाये और शामिल करते हुए यहाँ से रोड रोड पूर्व की और चलते हुए मेवालाल रेगर के मकान को दाये और छोड़ते हुए यहाँ से दक्षिण और मुड़कर भालुराम रीडर के मकान को बाये शामिल करते हुए कन्हेयालाल गुर्जर के मकान को दाये छोड़ते हुए यहाँ से बाई पास पर मुड़कर उत्तर की ओर रोड रोड चलकर बाये समस्त आबादी को शामिल करते हुए लुकमान मोहम्मद व खाजू मोहम्मद के मकान को दाये छोड़ते हुए जुम्मा खां पठान के मकान तक की बांयी आबादी को शामिल करते हुए यंहा से उत्तर की ओर रोड रोड चलकर डॉ समुन्दर लाल मीणा तक की बांये आबादी को शामिल करते हुए इश्हाक मोहम्मद व पीर बाबा को दाये छोड़ते हुए यंहा से पश्चिम की ओर मुड़कर रविन्द्र बाल निकेतन स्कूल की दांयी छोड़कर महावीर नागर के मकान को बांये शामिल करते हुए एब्नेजर स्कूल व रशीद मंसूरी के मकान को शामिल करते हुए DYSP कार्यालय की बाउंडरी को दाये छोड़ते हुए पंचायत समिति की बाउंड्री के सहारे सहारे चलकर पंचायत समिति परिसर को शामिल कर यंहा से बूंदी रोड क्रॉस कर तहसील बाउंड्री को दाये छोड़ते हुए राम प्रसाद कलाल व बंगाली के मकान को बालाजी रस्ते पर बांये और शामिल करते हुए सब ट्रेज़री को दाये छोड़कर यंहा से दक्षिण की ओर मुड़कर जोधराज के नवीन मकान को शामिल कर सीधे पोखर रेगर के मकान को बांये शामिल करते हुए बांये आबादी को शामिल कर प्रेम मंदिर टाकिज की बाउंड्री को दाये छोड़कर रामस्वरूप वर्मा कानूनगो के मकान पर समाप्त।

वार्ड नं. 17

जजावर तिराहा बायपास सोगानी की दुकान से प्रारम्भ कर बूंदी रोड की बाये आबादी को शामिल कर गुर्जर छात्रावास बटवाड़िया टेक को बाये शामिल करते हुये कालबेलिया बस्ती व लुहारीयों के बस्ती को बाये और शामिल कर पेट्रोल पम्प को दाये छोड़ते हुये चांदना भवन , भ.आ.ज.रा.मा. कालेज को बाये और शामिल करते हुये बाये आबादी को शामिस करते हुये रोड रोड चलकर पापोलाई एसार पेट्रोल पम्प को शामिल कर दाये और वन विभाग की भूमि को छोड़ते हुये यंहा से उत्तर की ओर चलकर लक्ष्मीनारायण माली के कुएं व मोरी वाले बाबा तक की बाये आबादी को शामील करते हुये शम्भू नागर के प्लाट को शामील कर पीर बाबा को दाये और छोड़ते हुये बाये और की सम्पूर्ण आबादी को शामिल कर लुकमान मोहम्मद अर्ध्यापक, खवाज मोहम्मद के मकान को बाये और शामिल करते हुये यहाँ से सीधे बाय पास रोड रोड चलकर बाये आबादी को शामिल कर कैलाश माली के मकान को शामिल करते हुये जजावर तिराहा बायपास सोगानी की दुकान पर समाप्त किया।

वार्ड नं. 18

बायपास रोड छात्रावास से प्रारम्भ करते हुये रोड रोड दक्षिण की ओर महादेव जी के मंदिर को शामिल करते हुए महावीर जैन मामा व उम्मेद सिंह जी के मकान को शामिल करते हुए पप्पू बन्ना जजावर वालों के मकान को दाये छोड़ते हुए रोड रोड चलकर इशाक मोहम्मद के मकान को शामिल करते हुए पीर बाबा के मदरसा को शामिल करते हुए न्यू वसुंधरा स्कूल को दाये छोड़ते हुए बांये आबादी को शामिल करते यंहा से पूर्व की ओर चलकर किशन मीणा, रामदेव मीणा, महावीर नागर व कोली के मकान को शामिल करते हुए बायपास से पूर्व की ओर सत्यनारायण कुम्हार के

मकान जगदीश बाबर के मकान को शामिल करते हुए कालबेलिया बस्ती को शामिल करते हुए सोनी जी के कुए व नगर पालिका की सीमा तक समस्त आबादी को शामिल करते हुए रामकुंवार माली, किशन माली, शिवराज शर्मा के मकान को शामिल करते हुए सीधे चलकर संपत्ति सिंह के मकान को शामिल करते हुए समस्त बांये आबादी को शामिल करते हुए छात्रावास भवन के उत्तरी कोने पर समाप्त किया गया।

वार्ड नं. 19

अदालत परिसर के सामने खन्ना की दूकान से शुरू करते हुए गिरिराज योगी के मकान को दांये छोड़ते हुए दक्षिण की ओर रोड रोड चलते हुए देवेन्द्र कुमार जैन व विमल कुमार चमरिया के मकान तक की समस्त बांये आबादी को शामिल करते हुए जलदाय परिसर को बांये छोड़कर थाना परिसर को बांये शामिल करते हुए DYSP परिसर को शामिल कर यंहा से पूर्व की ओर मुड़कर पंचायत समिति बाउंड्री को दांये छोड़ते हुए DYSP परिसर के सहारे सहारे चलकर यंहा से मुड़कर रशीद मंसूरी व एब्नेझर स्कूल और महावीर नागर के मकान को बांये छोड़ते हुए रविन्द्र बल निकेतन स्कूल को बांये शामिल करते हुए डॉ समन्दर लाल मीणा के मकान को दांये छोड़ते हुए यंहा से उत्तर की ओर रोड रोड चलकर पप्पू बन्ना जजब्र वालो के मकान को बांये ओर शामिल करते हुए उम्मीद सिंह के मकान को दांये छोड़ते हुए आगे रोड रोड चलते हुए जगदीश शर्मा के मकान को बांये शामिल करते हुए यंहा से पश्चिम की ओर मुड़कर गली गली चलते हुए रामफूल गुर्जर के मकान को बांये शामिल करते हुए समस्त दांये आबादी को छोड़ते हुए आगे चलकर जयसिंह के मकान को शामिल करते हुए यंहा से उत्तर मुड़कर महावीर जैन चमरिया के मकान को छोड़ते हुए दीपक गुर्जर के मकान को बांये शामिल करते हुए खन्ना खत्री के मकान पर समाप्त।

वार्ड नं. 20

भगत सिंह सर्किल से प्रारंभ होकर बट्टी लाल पोरवाल व डॉ बाबु लाल साहू के मकान व मोहन लाल मारवाड़ा के मकान को शामिल करते हुए मनोज बोरखण्डया के मकान व हायर सेकेंडरी स्कूल की बाउंड्री को शामिल करते हुए रोड रोड चलते हुए बैंक ऑफ ब्रोदा व वन विभाग कार्यालय को दांये छोड़ते हुए हर्ष वर्धन सिंह व गिरिराज योगी पटवारी के मकान को शामिल करते हुए यहाँ से पूर्व की ओर मुड़कर गली में चलकर महावीर चमरिया के मकान को शामिल करते हुए जय सिंह आशावत के मकान को दांये छोड़ते हुए यहाँ से पूर्व की ओर गली में आगे चलकर गिरिराज शर्मा व भंवर लाल मीणा के मकान को शामिल करते हुए रामफूल गुर्जर के मकान को दांये छोड़ते हुए भवानी सिंह जी अध्यापक के मकान को बांये शामिल करते हुए जगदीश शर्मा के मकान को दांये छोड़ते हुए समस्त बांये आबादी को शामिल करते हुए यहाँ से उत्तर की ओर रोड रोड स्कूल बाउंड्री के सहारे चलकर मदरसा की बांये और शामिल करते हुए हरिराम मीणा के मकान को दांये छोड़ते हुए यहाँ से पश्चिम को ओर मुड़कर रोड क्रोस कर रफीक कुंजड़ा के मकान को बांये शामिल करते हुए यहाँ से उत्तर की ओर गली गली चलकर बांये समस्त आबादी को शामिल करते हुए मदन सिंह जी के मकान व कालू खटीक के मकान को छोड़ते हुए सूरज पत्रकार व दामोदर बिजली वाले के खली भूखंड को बांये शामिल करते हुए यंहा से पश्चिम की ओर मुड़कर माननी मीणा बजरंग सोनी नीमलाल खटीक के मकान की समस्त बांये आबादी को शामिल करते हुए भगत सिंह सर्किल पर समाप्त किया गया।

वार्ड नं. 21

कालू लाल खटीक के मकान से प्रारम्भ करते हुए दक्षिण की ओर रोड रोड चलते हुए दामोदर बिजली वाले के खाली भू-खण्ड व सूरज पत्रकार के मकान को दायी छोड़ते हुए मदनसिंह जी राजपूत के मकान को बाये शामिल करते हुए रूपनारायण शर्मा व अमरसिंह जी अध्यापक के मकान तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए यहा से पूर्व की ओर मुड़कर मदरसा को दाये छोड़ते हुये ईशाक व हरिराम मीणा के मकान को बाये और शामिल करते हुये होस्टल के उतरी कोने तक की समस्त बाये आबादी को शामिल करते हुए होस्टल को दाये छोड़ते हुए यहाँ से पूर्व की ओर चलकर बाये की समस्त आबादी को शामिल करते हुए महेंद्र जैन ठोला व विमल माली, सम्पत्ति सिंह के मकान तक की समस्त बाये आबादी को शामिल करते हुए हरपाल का भट्टा व रमेश धोबी व हरपाल गुर्जर के कुवे तक की समस्त बाये आबादी को शामिल करते हुए नगर पालिका की सीमा तक की समस्त आबादी को शामिल लर बड़ी पड़ाप रोड व छप्पन जी के बरडा व घासी लाल गोस्वामी तक की समस्त बार्यों आबादी को शामिल करते हुए यहा से पश्चिम की ओर चलकर बीच शहर स्कूल व जैन स्कूल को दाये छोड़ते हुये रोड रोड चलकर बाये और की समस्त आबादी को शामिल करते हुए कालू लाल खटीक के मकान पर समाप्त।

वार्ड नं. 22

रोड़ लाल जाट व भंवर लाल जाट के मकान से प्रारम्भ कर हजारी माली के मकान को शामिल करते हुए रोड रोड चलकर बटावपीर बाबा को शामिल कर यहा से पूर्व की ओर चलकर बाये और की समस्त आबादी को शामिल करते हुए मदन लाल नागर के मकान को दाये छोड़ते हुए समस्त बाये और की जाट बस्ती, धाकड़ बस्ती, कालबेलिया बस्ती, बाबाजी बस्ती, एवं किसान कालोनी को शामिल करते गये रोड़ लाल जाट के मकान पर समाप्त किया।

वार्ड नं. 23

उनियारा रोड डाक बंगला के उतरी कोण से प्रारम्भ करते हुए दक्षिण की ओर रोड रोड चलते हुये PWD विभाग को दाये छोड़ते हुए बाये और की समस्त आबादी व महावीर जैन परेशान के मकान को शामिल करते हुए आगे चल कर नाथु लाल तेली के मकान तक की समस्त आबादी को शामिल करते हुए रमेश चंद जैन व धाकड़ लाज को दाये छोड़ते हुए यहा से पूर्व की ओर कालु लुहार के मकान को शामिल करते हुए भगत सिंह सर्किल को दाये छोड़ते हुये पाँवर हाउस को बाये शामिल करते हुए प्रवीण कुमार जैन के मकान को बाये और शामिल कर चंद्रसागर दिगंबर जैन स्कूल को शामिल करते हुए कालू खटीक के मकान को दाये और छोड़ते हुए आगे चलकर बीच शहर स्कूल को शामिल करते हुए बाये और की समस्त आबादी को शामिल कर आगे चलकर मदन लाल नागर के मकान को शामिल करते हुए ज्योति नगर व बंसत बिहार कोलोनी की समस्त आबादी को शामिल करते हुए डाक बंगला के उतरी कोण पर समाप्त किया।

वार्ड नं. 24

आबकारी आफिस से प्रारम्भ करते हुये पूर्व की ओर चलकर छोटू तम्बोली के मकान व तेजाजी थानक को दाये छोड़ते हुए बसीर मोहम्मद की दुकान नीलकंठ महादेव जी व रामकुवार धाकड़ तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए पोस्ट ऑफिस को दाये छोड़ते हुए यहाँ से उतर की ओर मुड़कर

रमेश जैन के मकान को बाये शामिल करते हुए रामनारायण तेली के मकान व प्रमोद जैन के मकान को दाये छोड़ते हुए रोड रोड चलते हुए विचित्र सिंह की दुकान को बाये शामिल करते हुए PWD ऑफिस तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए डाक बंगले को दाये छोड़ते हुए यहाँ से नगर रोड चलकर रमजानी पठान की दुकानों को दाये छोड़ते हुए अस्पताल परिसर के बाये शामिल करते हुए गीता देवी के मकान व पटवारी के कुए की बाये आबादी को शामिल करते हुए बाबूलाल धाकड़ शिवराज धाकड़ व मोडल स्कूल को दाये छोड़ते हुए राजीव कोलोनी व मदन धाकड़ के कुए तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए सलावटो के कुए को दाये छोड़ते हुए किशन बिहारी योगी के कुए को बाये शामिल करते हुए गुल्लू पठान के कुए को दाये छोड़ते हुए यहाँ से दक्षिण की ओर चलकर कनक सागर को शामिल करते हुए कोट लांधकर कुंड व शंकर बेरागी के मकान को शामिल कर रोड क्रोस कर माजिद टेलर व सलीम चक्की वाले को बाये शामिल करते हुए यहाँ से हरिनारायण सोनी बसीर मोहम्मद तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए महावीर शर्मा व भेरु जी के थानक को दाये छोड़ते हुए उच्छब जी धापाडर्धींगा इकरामुदीन जामा माजिद व डॉक्टर गोरी के मकान को बाये और शामिल करते हुए यहाँ से रोड क्रोस कर गडपोल दरवाजा आबकारी आफिस पर समाप्त।

वार्ड नं. 25

नगर रोड कालबेलिया बस्ती से प्रारम्भ करते हुए यहाँ से पूर्व की ओर चलकर माडल स्कूल तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए गीता देवी के मकान को दाये छोड़ते हुये आगे चलकर उच्छब धर्मशाला व बाबूलाल धाकड़, शिवराज व मेडिकल स्टोर को बाये और शामिल करते हुए अस्पताल व PWD विभाग को दाये छोड़ते हुये रमजानी पठान की दुकानों को बाये शामिल करते हुए यहा से उनियारा रोड मुड़कर उत्तर की ओर चलकर पीर बाबा के स्थान को दाये और छोड़ते हुये मेस्सी टेक्टर व हीरो हौंडा शोरुम तक की बाये आबादी को शामिल करते हुए पेट्रोल पम्प को दाये छोड़ते हुए सलीम लुहार के मकान को शामिल करते हुए यहाँ से पश्चिम की ओर चलकर टटो के झोपड़ो को शामिल करते हुए समस्त बाये आबादी को शामिल करते हुए कालबेलिया बस्ती पर समाप्त।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका नैनवाँ

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।